

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 सितम्बर 2017—भाद्र 28, शक 1939

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

क्र. एफ 3-3-2017-सात-4ए.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के अधीन स्थित चार शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर के कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरान्त बंद किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.